

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 157] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 9, 1965/कार्तिक 18, 1887 (शक)
No. 157 NEW DELHI, TUESDAY NOVEMBER 9, 1965 KARTIKA 18, 1887 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती हैं जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

PRESIDENT'S SECRETARIAT

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th November, 1965/Kartika 18, 1887(S)

No. 102-Pres./65.—The President is pleased to make the following awards :—

PADMA VIBHUSHAN

General Jayanto Nath Chaudhuri, Chief of the Army Staff.

Air Marshal Arjan Singh, Chief of the Air Staff.

PADMA BHUSHAN

Lieutenant General Harbakhsh Singh, General Officer Commanding-in-Chief, Western Command.

Lieutenant General Kashmir Singh Katoch, General Officer Commanding, XV Corps.

Lieutenant General Jogindar Singh Dhillon, General Officer Commanding, XI Corps.

Lieutenant General Patrick Oswald Dunn, General Officer Commanding, I Corps.

Air Vice Marshal Pratap Chandra Lal, Vice Chief of Air Staff.

Air Vice Marshal Ramaswamy Rajaram, Air Officer Commanding-in-Chief, Western Air Command.

V. J. MOORE,

Deputy Secretary.

राष्ट्रपति सचिवालय

प्रवृत्ति

नई दिल्ली, 9 नवम्बर, 1965/18 कार्तिक, 1887 (शक)

सं० 102-प्रेज/65.—राष्ट्रपति निम्नांकित पदक प्रदान करने हैं :—

पद्म विभूषण

जनरल जयन्तो नाथ चौधरी, सेना अध्यक्ष ।

एयर मार्शल अर्जुन सिंह, वायुसेना अध्यक्ष ।

पद्म भूषण

लेफ्टानेन्ट जनरल हरबख्श सिंह, जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी कमान ।

लेफ्टानेन्ट जनरल काश्मीर सिंह कटोच, जनरल आफिसर कमांडिंग, 15वीं कोर ।

लेफ्टानेन्ट जनरल जोगिन्दर सिंह ढिल्लन, जनरल आफिसर कमांडिंग, 11वीं कोर ।

लेफ्टानेन्ट जनरल पैट्रिक ओसवाल्ट डन्न, जनरल आफिसर कमांडिंग, 1ले कोर ।

एयर वाईस मार्शल प्रताप चन्द्र लाल, उपाध्यक्ष, वायुसेना ।

एयर वाईस मार्शल रामस्वामी राजाराम, एयर आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, पश्चिमी वायु कमान ।

(व० जे० मोर)

उप सचिव ।